



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13—मार्च 19, 2010 (फाल्गुन 22, 1931)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13—MARCH 19, 2010 (PHALGUNA 22, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2010

वित्त प्रभाग

सं. 120, दिनांक 19 फरवरी 2010—राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईए एंड एएस) (1984) के अधिकारी श्री प्रमोद कुमार मिश्रा को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 30 अक्टूबर 2009 के अपराह्न से अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी जोसफ

उप वित्तीय सलाहकार (स्था./एमओ)

सं. 121, दिनांक 19 फरवरी 2010—राष्ट्रपति, रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की लेखा अधिकारी श्रीमती कमलेश कुमारी को दिनांक 10 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से सामान्य प्रतिनियुक्ति आधार पर रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर सी मीना

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था.)

सं. 122, दिनांक 19 फरवरी 2010—राष्ट्रपति महोदय, अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर

कप्तान प्रिया टॉक (एमएस-15926डब्ल्यू), आयोग की तिथि 16 सितम्बर 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2005 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता शल्यविज्ञान-निष्णात (नेत्र विज्ञान) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान संजीव एस शर्मा (एमएस-15386एच), आयोग की तिथि 22 सितम्बर 2006, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2003 से दी जाएगी।

[इसमें स्नातकोत्तर योग्यता बैधक अधिस्नातक (रोग प्रतिबंधक व सामाजिक औषध वैधकशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी]

कप्तान सिंह सुधीर अखिलेश कुमार (एमएस-15600ए), आयोग की तिथि 06 सितम्बर 2007, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 06 मार्च 2004 से दी जाएगी।

[इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एमडी (पीएसएम) एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए (36+6) 42 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी]

कप्तान नरोत्तम शर्मा (एमएस-15788ए), कमीशन की तिथि 25 अप्रैल 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान प्रीतेश साहानी (एमएस-15861एन), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान गौतम बैरागी (एमएस-15892एन), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान भावना पाठक (एमएस-15895एफ), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 अगस्त 2005 से दी जाएगी।

[इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (जनरल मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी]

कप्तान ज्योति कुमार सिंह (एमएस-15904एक्स), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान सौमिक पात्रा (एमएस-15906एच), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान मयंक दीक्षित (एमएस-15777एन), आयोग की तिथि 25 अप्रैल 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

फ्ला लेफ्टि के पद पर

फ्ला लेफ्टि ललित कुमार (एमएस-15625एम) (एफ- 29419एल), आयोग की तिथि 06 सितम्बर 2007, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 06 मार्च 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

फ्ला लेफ्टि शान्तनु दुबारा (एमएस-15809एल) (एफ- 29436), कमीशन की तिथि 25 अप्रैल 2008, वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

फ्ला लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्टि बाधमारे सचिन पंदरीनाथ (एमएस-15893डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2008

फ्ला लेफ्टि जितु मणि कलिता (एमएस-15905ए), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान सुमीत कुमार सिंह (एमएस-15791ए), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान पटेल कश्यपकुमार चन्द्रकान्तभाई (एमएस-15849एम), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान मनु एन (एमएस-15871एक्स), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान चौहान मिलिंद काशीनाथ (एमएस-15897एम), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान शुभ्रोज्ज्वल साहा (एमएस-15909डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान शैलेश कुमार पीहल (एमएस-15914एफ), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान हिमांशु शर्मा (एमएस-15915के), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान मोनिका सारस्वत (एमएस-15917पी), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान अरुण के वल्सन (एमएस-15921एक्स), एएमसी, 16 सितम्बर 2008

कप्तान प्रीति मिश्रा (एमएस-15927वाई), एएमसी, 16 सितम्बर 2008

कप्तान गौतम एच विजय (एमएस-15931एफ), एएमसी, 30 सितम्बर 2008

कप्तान श्रीधर आर पिल्लेवान (एमएस-15932के), एएमसी, 30 सितम्बर 2008

कप्तान हरिराम प्रसाद (एमएस-15933एम), एएमसी, 30 सितम्बर 2008

कप्तान संतोष कुमार चन्देरिया (एमएस-15937एच), एएमसी, 04 नवम्बर 2008

कप्तान रश्मि चक्रवर्ती (एमएस-15939एन), एएमसी, 18 नवम्बर 2008

कप्तान अभिषेक राठौर (एमएस-15422एच), एएमसी, 06 अक्टूबर 2006

कप्तान पंकु कुमार (एमएस-15572वाई), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान अमिताभ पाण्डे (एमएस-15747डब्ल्यू), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान मनवीर पाल कौर (एमएस-15797एफ), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान छिरिंग दोर्जी शेर्पा (एमएस-15713एच), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान मनोज शर्मा (एमएस-15753के), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान संहिता भूषण (एमएस-15754एम), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान दिलीप कुमार दीपक (एमएस-15767के), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान सन्तोष रंजन नायक (एमएस-15779वाई), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान इन्दु बाला (एमएस-15786पी), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान उमा महेश्वरी एम (एमएस-15816एफ), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान यादविंदर सिंह सिद्धु (एमएस-15818एम), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान शेख अझिमुद्दीन नजमुद्दीन (एमएस-15827एन), एएमसी, 22 मई 2008

कप्तान अकोइजम खेलेद्रो सिंह (एमएस-15439डब्ल्यू), एएमसी, 22 जनवरी 2007

कप्तान अनिल कुमार (एमएस-15912डब्ल्यू), एएमसी, 12 अगस्त 2008

कप्तान प्रवीण कुमार रेड्डी के (एमएस-15790एक्स), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

कप्तान घनश्याम स्वर्गीयारी (एमएस-15751वाई), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश 10/2001 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर-तकनीकी) स्थायी कमीशन अधिकारियों को

07 अप्रैल 2009 से नियुक्त करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टि के पद पर 07 अप्रैल 2009 से प्रभावी (परख पर)

पद, नाम, पुराना व्यक्तिगत संख्या, नया व्यक्तिगत संख्या तथा कमीशन की तिथि

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-694606एक्स), (एनटीआर-16814एच), 07 अप्रैल 2009

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2007 से प्रभावी)

नायब सूबेदार संतोष के रघुवंशी (जेसी-694628डब्ल्यू), (एनटीआर-16815एल), 07 अप्रैल 2009

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2007 से प्रभावी)

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-695327वाई), (एनटीआर-16816एन), 07 अप्रैल 2009

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2007 से प्रभावी)

नायक एस थंगवेल (सं. 13993475के), (एनटीआर-16817डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2009

नायक बलविंदर सिंह (सं. 13977306वाई), (एनटीआर-16818वाई), 07 अप्रैल 2009

नायक अमनदीप सिंह (सं. 15411784एम), (एनटीआर-16819एफ), 07 अप्रैल 2009

नायक सुधीर कुमार शर्मा (सं. 15415185के), (एनटीआर-16820डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2009

नायक सेलेश कुमार (सं. 13992407के), (एनटीआर-16821वाई), 07 अप्रैल 2009

सिपाही सुंधिर कुमार (सं. 15411887एल), (एनटीआर-16822एफ), 07 अप्रैल 2009

सिपाही विनय कुमार (सं. 15415182डब्ल्यू), (एनटीआर-16823के), 07 अप्रैल 2009

सिपाही दिलीप कुमार (सं. 15415646एच), (एनटीआर-16824एम), 07 अप्रैल 2009

सिपाही विजय सिंह गुजर (सं. 15415868एक्स), (एनटीआर-16825पी), 07 अप्रैल 2009

सिपाही ओम प्रकाश चौधरी (सं. 15416309ए), (एनटीआर-16826एक्स), 07 अप्रैल 2009

सिपाही अनिल कुमार उपाध्याय (सं. 15416609एफ), (एनटीआर-16827ए), 07 अप्रैल 2009

राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी) अस्थायी कमीशन अधिकारियों को 07 अप्रैल 2009 से नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 07 अप्रैल 2009 से प्रभावी (परख पर)

पद, नाम, पुराना व्यक्तिगत संख्या, नया व्यक्तिगत संख्या तथा कमीशन की तिथि

नायक उधम सिंह (सं. 13989637एम), (एनटीएस-17572एक्स), 07 अप्रैल 2009

नायक के वी एस अनिल कुमार (सं. 13994325ए), (एनटीएस-17573ए), 07 अप्रैल 2009

सिपाही ब्रिजेश टी ए (सं. 13999307एफ), (एनटीएस-17574एच), 07 अप्रैल 2009

सिपाही कान्ता राज (सं. 15411601एल), (एनटीएस-17575एल), 07 अप्रैल 2009

सिपाही राजेश के उपाध्याय (सं. 15414888वाई), (एनटीएस-17576एन), 07 अप्रैल 2009

सिपाही देवैया एम एस (सं. 15417680एफ), (एनटीएस-17577डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2009

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

लेफ्टि कनीका पराशर (एमएस-15946के), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि रूचि हेमदानी (एमएस-15947एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि मौमिता घटक (एमएस-15948पी), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि राहुल प्रेम एम आर (एमएस-15952एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि चाँद ओहरी (एमएस-15953ए), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि अन्वीता कृष्ण कुमार (एमएस-15957डब्ल्यू), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि ललित तोमर (एमएस-15959एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि तारा प्रणव भट्टाचार्य (एमएस-15963के), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि पुलकित थातयी (एमएस-15964एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि विजय सिंह (एमएस-15968एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि अनुपम सिसोदिया (एमएस-15969एल), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि बी विपिन (एमएस-15974डब्ल्यू), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि अदिल अब्दुल्ला (एमएस-15976एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि निखिल प्रकाश (एमएस-15977के), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि हितेन्द्र सिंह राव (एमएस-15978एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि हितेश खन्ना (एमएस-15980के), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि सुरेश टी फिलिप (एमएस-15981एम), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि सौरभ शर्मा (एमएस-15983एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि प्रवीण प्रभाकरण (एमएस-15985एच), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि इशान सुनियारा (एमएस-15986एल), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि लिन्यो मंजली (एमएस-15987एन), एएमसी, 05 मार्च 2009

लेफ्टि स्वयम सोवा साहू (एमएस-15970ए), एएमसी, 05 मार्च 2009

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 123, दिनांक 22 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 17 सितम्बर 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 17 सितम्बर 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

एसएस सं., आईसी सं. आर्बंटित, नाम व आर्म/सर्विस

(एसएस-40866एक्स), (आईसी-66179वाई), राज सिंह, एसी

(एसएस-40868एच), (आईसी-66181डब्ल्यू), राकेश यादव, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40869एल), (आईसी-66182वाई), सैयद मोहम्मद आरीफ,

एससी

(एसएस-40872एल), (आईसी-66184के), तेजेन्द्र सिंह शक्तावत, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40874डब्ल्यू), (आईसी-66185एम), महेश बेल्लाद, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40876एफ), (आईसी-66187एक्स), सौरभ डी डी, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40877के), (आईसी-66188ए), भगत अक्षय सुरेश, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40878एम), (आईसी-66189एच), हर्ष वर्धन सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40881एम), (आईसी-66192एच), रोहितकुमार अशोक पाटिल, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40882पी), (आईसी-66193एल), बिरेन पारानाडेन, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40884ए), (आईसी-66195डब्ल्यू), हिम्मत सिंह, एसी
(एसएस-40887एन), (आईसी-66198के), रवि कान्त, आर्टी
(एसएस-40890एन), (आईसी-66199एम), बरूण सिंघा, आर्टी
(एसएस-40891डब्ल्यू), (आईसी-66200डब्ल्यू), मिर्जा जहद बेग, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40896पी), (आईसी-66201वाई), सुनील यादव, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40897एक्स), (आईसी-66202एफ), लोखंडे पराग कृष्णराव, आर्टी

(एसएस-40898ए), (आईसी-66203के), जितेश बी, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40900एम), (आईसी-66204एम), चारुदत्त जयन्त रानडे, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40901पी), (आईसी-66205पी), विजयेन्द्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40903ए), (आईसी-66207ए), सतीश चन्द्रा लखेरा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40907डब्ल्यू), (आईसी-66209एल), अभिजीत रजनीकान्त दामले, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40908वाई), (आईसी-66210ए), रोहित सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40909एफ), (आईसी-66211एच), पुनीत मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40911वाई), (आईसी-66212एल), मोहन राव, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40912एफ), (आईसी-66213एन), रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40914एम), (आईसी-66215वाई), कपिल राय, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40918एच), (आईसी-66216एफ), रहेश बी कुरूप, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40924डब्ल्यू), (आईसी-66219पी), विजयन्त बिष्ट, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40925वाई), (आईसी-66220के), प्रवीण, एओसी
(एसएस-40927के), (आईसी-66221एम), नितिन राणा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40928एम), (आईसी-66222पी), अमन अमरिक सिंह, एएससी

(एसएस-40929पी), (आईसी-66223एक्स), के श्रीनिवासुलु, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40930के), (आईसी-66224ए), काझी निहाल इसामुद्दीन, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-40935एच), (आईसी-66225एच), एन तौसही, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40936एल), (आईसी-66226एल), चकानातु शिबू जॉन, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40937एन), (आईसी-66227एन), विवेक एच सहाय, आर्टी
(एसएस-40941डब्ल्यू), (आईसी-66229वाई), मनोज कुमार तिवारी, आर्टी

(एसएस-40942वाई), (आईसी-66230एन), राघवेन्द्र सिंह, एएससी
(एसएस-40943एफ), (आईसी-66231डब्ल्यू), जितेन्द्र सिंह शाखावता, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40945एम), (आईसी-66232वाई), गाटो रमेश उदेयसिन, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40946पी), (आईसी-66233एफ), पाटिल अर्जुन सुरेश, एसी

(एसएस-40949एच), (आईसी-66234के), निखिल वाध, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40950एक्स), (आईसी-66235एम), शैलेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40953एल), (आईसी-66236पी), रंजन कुमार झा, आर्टी
(एसएस-40954एन), (आईसी-66237एक्स), मनमोत सिंह लखा, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-40958के), (आईसी-66238ए), आर पी अनंत राजू, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40960एफ), (आईसी-66239एच), भारतेन्दु रावत, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40965ए), (आईसी-66241ए), जयवर्धन सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40966एच), (आईसी-66242एच), रविश कुमार सिंह, आर्टी

(एसएस-40967एल), (आईसी-66243एल), अभय बिष्ट, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-40970एल), (आईसी-66245डब्ल्यू), अमित द्विवेदी, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40974एफ), (आईसी-66248के), कुंवर सौरभ सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40976एम), (आईसी-66249एम), गोपाल मेहरा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-40977पी), (आईसी-66250एफ), बिक्रम सिंह सिंघ, एओसी

(एसएस-40979ए), (आईसी-66251के), नरेश कुमार राणा राजपूत, आर्टी

(एसएस-40982ए), (आईसी-66254एक्स), सुभाषिश मजुमदार, आर्टी

(एसएस-40986डब्ल्यू), (आईसी-66256एच), मनीष सिंह, आर्टी
(एसएस-40987वाई), (आईसी-66257एल), अमित बोरा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40989के), (आईसी-66258एन), जयपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-40994पी), (आईसी-66260एल), शोभित डोगरा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41003एच), (आईसी-66263वाई), साहिल ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41005एन), (आईसी-66264एफ), गुरविंदर सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41007वाई), (आईसी-66265के), हरजीत सिंह, आर्टी
(एसएस-41009के), (आईसी-66266एम), अरुण के, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41014पी), (आईसी-66268एक्स), मनीष सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41015एक्स), (आईसी-66269ए), वरुण कुमार, आर्टी

(एसएस-41021एल), (आईसी-66271एक्स), भवानी सिंह रणावत, मैक इन्फैन्ट्री

(एसएस-41022एन), (आईसी-66272ए), नरेश चन्द्र तिवारी, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41024वाई), (आईसी-66273एच), अतीत हैन्सन, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41026के), (आईसी-66274एल), विकास दुबे, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41032एक्स), (आईसी-66280वाई), सिद्धार्थ सक्सेना, एसी
(एसएस-41034एच), (आईसी-66281एफ), सियान्ये के, आर्टी
(एसएस-41035एल), (आईसी-66282के), ध्यानचन्द राजकुमार, आर्टी

(एसएस-41039एफ), (आईसी-66284पी), संदीप कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41049एल), (आईसी-66291एल), विक्रांत कुमार झाल्दे, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41053एन), (आईसी-66293डब्ल्यू), अनिल पुन, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41058एम), (आईसी-66295एफ), परिचय अरोड़ा, एसी
(एसएस-41059पी), (आईसी-66296के), त्रिवेन्द्र सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41060के), (आईसी-66297एम), सोमनाथ रॉय, आर्टी
(एसएस-41063एक्स), (आईसी-66300एफ), पुखरमबम हीरोजीत सिंह, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41065एच), (आईसी-66302एम), रजत शर्मा, आर्टी
(एसएस-41068डब्ल्यू), (आईसी-66304एक्स), अतोम किरन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41069वाई), (आईसी-66305ए), इरबेम जयन्त कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41076पी), (आईसी-66308एन), अभिषेक प्रकाश, एएडी
(एसएस-41081ए), (आईसी-66310एल), अभिषेक सिंहाल, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41083एल), (आईसी-66311एन), भरत सिंह चौहान, एसी
(एसएस-41084एन), (आईसी-66312डब्ल्यू), मनीष सिरोही, इन्फैन्ट्री
(एसएस-41092एम), (आईसी-66314एफ), सुनन्दन नन्दी, आर्टी
(एसएस-41094एक्स), (आईसी-66316एम), गोडबोले आशिष विश्वनाथ, आर्टी

(एसएस-41045पी), (आईसी-66288एल), हिम्मत सिंह सांधा, इन्फैन्ट्री

(एसएस-41073एफ), (आईसी-66306एच), मनीश दधीच, एसी

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख--17 सितम्बर 2004

पदोन्नति के लिये तारीख--17 अप्रैल 2005

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांचवे वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उसकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

वि एस रानडे

कर्नल

कर्नल एम एस-7

सेना शाखा

सं. 124, दिनांक 22 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करती हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(लेफ्टि. के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2008 से)

(आईसी-71146एक्स), नायर साईनाथ सोमनाथन, (इंजीनियर्स), ज्येष्ठता (आईसी-71145पी), अनिरुद्ध रमेश कुमार सुनकारा (इन्फैन्ट्री) के नीचे जिसका नाम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में दिनांक 18 जुलाई 2009 को प्रकाशित किया गया है।

नीलेश चौधरी

लेफ्टि. कर्नल

एमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 125, दिनांक 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

लेफ्टि कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

आईसी संख्या, नाम, आर्म तथा सब्सटेंटिव तिथि

- (आईसी-27329एन) एस जी नायर, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
 (आईसी-36515एल) पी एस महन्त, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
 (आईसी-36824एन) वी पी मार्टिन, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
 (आईसी-41118डब्ल्यू) ए सी चेरियन, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009
 (आईसी-41124के) एन के खट्टर, आर्टी, 18 जून 2009
 (आईसी-41180एल) जी सी शर्मा, गार्ड्स, 18 जून 2009
 (आईसी-41199एफ) प्रताप सिंह, आर्टी, 18 जून 2009
 (आईसी-41201एन) वाई पी एस भदोला, मैक इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009
 (आईसी-41208एक्स) यू एस कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009
 (आईसी-41275एच) रवि कुमार पी जी, आर्टी, 18 जून 2009
 (आईसी-41304) अनुज श्रीवास्तव, एएससी, 18 जून 2009
 (आईसी-41334के) वाई सुदन, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009
 (आईसी-41452एक्स) एस गोपाल, आईसी, 18 जून 2009
 (आईसी-43184एक्स) पंकज मालवीय, इंजीनियर्स, 19 जून 2009
 (आईसी-45028एम) ए के ठाकुर, इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2009
 (आईसी-37988डब्ल्यू) पी आर दास, आर्टी, 11 नवम्बर 2008
 (आईसी-38335एफ) अशोक कालिया, एसी, 22 दिसम्बर 2005
 (आईसी-38404एम) एच लिमबाछिया, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
 (आईसी-38481एफ) डी एस यनवार, आर्टी, 22 जून 2007
 (आईसी-40978एक्स) आर के पलेय, इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2008
 (आईसी-41114ए) एस के मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009
 (आईसी-41250डब्ल्यू) एम पी सिंह, एसी, 18 जून 2009
 (आईसी-45044के) एस एस प्रधान, इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2009
 (आईसी-45048ए) आर एन गोखले, इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2009
 (आईसी-38504एक्स) पी एस राजू, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
 (आईसी-40774एल) विशेष जलानी, इंजीनियर्स, 24 दिसम्बर 2008
 (आईसी-41115एच) आर एस पी सेलवन, आर्टी, 18 जून 2009
 (आईसी-41164एल) नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 18 जून 2009
 (आईसी-43195के) जे एस चौहान, सिग्नल, 19 जून 2009

मेजर से लेफ्टि कर्नल

आईसी सं., नाम तथा आर्म

- (आईसी-54090) गौरव चन्द्र, एसी--09 दिसम्बर 2008
 (आईसी-58087) अमित कुमार नरुला, सिग्नल्स--13 जून 2009

मेजर से लेफ्टि कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

आईसी संख्या, नाम, आर्म तथा सब्सटेंटिव तिथि

(आईसी-40808एन) एच एस पानू, इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2002

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 126, दिनांक 23 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

- (एमएस-13411एक्स) मेजर मिताली हजारीका, 05 जुलाई 2009
 (एमएस-13594वाई) मेजर राज कुमार सिंह, 15 जुलाई 2009
 (एमएस-13876एक्स) मेजर इरा भगत, 18 जुलाई 2009
 (एमएस-15415एम) मेजर बिन्दु टी नायर, 25 जून 2009
 (एमएस-13778एक्स) मेजर राजीब कुमार, 26 अगस्त 2009

कैप्टन से मेजर के पद पर

- (एमएस-14984एन) कैप्टन सुखविंदर सिंह संघा, 12 अप्रैल 2009
 (एमएस-15119एफ) कैप्टन कमल कुमार, 16 जून 2009
 (एमएस-15122एफ) कैप्टन अर्चना दलेला, 16 जून 2009
 (एमएस-15140के) कैप्टन स्वर्णप्रीत कौर, 16 जून 2009
 (एमएस-15302के) कैप्टन राकेश भाटिया, 16 जून 2009

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

- (एमएस-15468एल), (75935बी), सर्जन लेफ्टि अपर्णा कृष्णमूर्ति, 22 जनवरी 2008
 (एमएस-15018एन), (75886टी), सर्जन लेफ्टि जयराम यादव, 12 अप्रैल 2009
 (एमएस-15019डब्ल्यू), (75888वाई), सर्जन लेफ्टि मार्क बीलचम जी मोमीन, 12 अप्रैल 2009
 (एमएस-15021एन), (75892एफ), सर्जन लेफ्टि मोनिका सक्सेना, 12 अप्रैल 2009
 (एमएस-15051एल), (75891बी), सर्जन लेफ्टि अंजली पाण्डेय, 12 अप्रैल 2009

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से(मा सं)

सेना शाखा

सं. 127, दिनांक 23 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करती हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एसएल)

ले से कप्तान

एसएल सं., नाम व आर्म

- (एसएल-04952) जगदीश चन्द्र, आईईबी/आर एण्ड एसडब्ल्यू
 (एसएल-04953) अश्वनी कुमार, आईईबी/आर एण्ड एसडब्ल्यू
 (एसएल-04954) अनिल कुमार के आर, आईईबी/आर एण्ड एसडब्ल्यू
 (एसएल-04955) माली संपतराव तुकाराम, आईईई/एम एण्ड आईईएम
 (एसएल-04956) मलमिन्दर सिंह, बीएसटीईओ
 (एसएल-04957) विजय कुमार वर्मा, ईएमआई
 (एसएल-04958) प्रताप सिंह, आरओ
 (एसएल-04959) साम सुन्दर सिंह एम, टीओटी
 (एसएल-04960) सी जितेन्द्र नाथा रेड्डी, टीओटी
 (एसएल-04961) नायक गिरीश शिवप्पा, बीएसटीईओ
 (एसएल-04962) मनोज टीएस, आरओ
 (एसएल-04963) अनिल चौहान, आरओ
 (एसएल-04964) राजीवन मरम मुरियन, आरओ
 (एसएल-04965) मनेपल्ली वेंकट श्रीनिवास, आरओ
 (एसएल-04966) अगस्त्य ऋषि, आरओ
 (एसएल-04967) आर वेडीवेल, आरओ
 (एसएल-04968) मदन लाल चौधरी, आरओ
 (एसएल-04969) विपिन कुमार एम, एओ
 (एसएल-04970) सतपाल सिंह, मास्टर एट आर्म्स (एपीटीसी)
 (एसएल-04971) हरीश कुमार, आरओ
 (एसएल-04972) कलम सिंह, आरओ
 (एसएल-04973) भोंसले विश्वास जगन्नाथ, आरओ
 (एसएल-04974) चैन सुख, आरओ
 (एसएल-04975) बाबू राज, आरओ
 (एसएल-04976) अशोक कुमार, आरओ
 (एसएल-04977) के वेणुगोपाल, आईईई/एम एण्ड आईईएम
 (एसएल-04978) रमनदीप डबला, आरओ

(एसएल-04979) गणेश दत्त जोशी, आरओ

(एसएल-04980) विमल जोशी, आईओएबी

(एसएल-04981) टिप्पणी नागेश्वर राव, आईईबी/आर एण्ड एसडब्ल्यू

(एसएल-04982) आनन्द जे आर, आईईबी/आर एण्ड एसडब्ल्यू

(एसएल-04983) एल महेश कुमार, आरओ

(एसएल-04984) जगत सिंह, आरओ

(एसएल-04985) अशोक कुमार, आईओएबी

--11 अगस्त 2009

जसवन्त सिंह
 संयुक्त निदेशक
 एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 128, दिनांक 23 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी/एसएससी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नतियां करती हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टि से कैप्टन के पद पर

- (एमएस-15657पी) लेफ्टि अनुराग शुक्ला, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15696एन) लेफ्टि कुंवर शैवेन्द्र, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15697डब्ल्यू) लेफ्टि दलीप सिंह, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15655के) लेफ्टि मोहम्मद खान, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15685एफ) लेफ्टि रविश कुमार, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15656एम) लेफ्टि वंदना बंसल, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15667बाई) लेफ्टि वेद प्रताप तिवारी, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15673एम) लेफ्टि शशांक रायकवर, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15674पी) लेफ्टि श्रेयश तिवारी, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15675एक्स) लेफ्टि गुनवीन सिंह सचदेवा, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15677एच) लेफ्टि मिथलेश कुमार तिवारी, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15683डब्ल्यू) लेफ्टि विभु प्रताप सिंह रघुवंशी, 01 फरवरी 2009
 (एमएस-15688पी) लेफ्टि रौनक दुबे, 01 फरवरी 2009

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टि से कप्तान के पद पर

नाम, पद, व्यक्तिगत सं. व पदोन्नति की तिथि

एम ओमयोरूभागन पिल्ले लेफ्टि (एनटीआर-16761पी), 20 मार्च 2009

यश पांडे
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं.)

वायु शाखा

सं. 129, दिनांक 24 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करती है:--

भारतीय वायु सेना
उड़ान शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में

के जे मैथ्यूस (13393), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एस वर्तमान (13606), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में

आर जी बुर्ली (14667), उ(पा), 25 मई 2009

ए के सिंह

उप-निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

वायु शाखा

सं. 130, दिनांक 24 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करती है :-

भारतीय वायु सेना
उड़ान शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एस ए कुन्ते (18073), उपा, 12 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 (नोसे)

के बी करुमबाया (18074), (पी/आर-31 दिसम्बर 2008), उपा, 01 अगस्त 2008

ए चटर्जी (18078), उपा, 18 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 (नोसे)

डी के अवस्थी (18079), उपा, 03 अक्टूबर 2008/12 अगस्त 2008 (नोसे)

एन बिश्वास (18081), उपा, 14 अगस्त 2008

एस आर सिंह (18083), उपा, 01 सितम्बर 2008

टी के सिन्हा (18084), उपा, 01 सितम्बर 2008

ए कत्याल (18086), उपा, 15 सितम्बर 2008

एम एस वेंकटेश्वर (18087), उपा, 15 सितम्बर 2008

एस कपूर (18089), उपा, 15 सितम्बर 2008

पी वी गाडगिल (18093), उपा, 01 अक्टूबर 2008

आर भल्ला (18094), उपा, 23 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 (नो से)

ए ग्रीवर (18095), उपा, 16 अक्टूबर 2008

पी के मोहे (18099), उपा, 16 नवम्बर 2008

प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

पी डेनियल (16850), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

ए एस डोंग्रे (17031), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

डी वरमानी (17037), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

एस करुणाकर (17042), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

डी एन पंडा (17050), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

एस कुमार (17052), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

सी पी निगम (17054), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

एस मुखोपाध्याय (17061), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

एस बनर्जी (17066), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

आर एस राजपूत (17193), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

डी प्रजापति (17194), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

ए भट्टचार्या (17200), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

ए के मिश्रा (17201), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

आर पी अन्ते (17217), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

एच ओ मेहरा (17221), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

पी पार्थसारथी (17383), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

आर शर्मा (17479), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

ए सचदेव (17481), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

जे जोस (17482), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

आर के चिट्ठ (17483), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

डी वी मोहबे (17484), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

एस चौधरी (17485), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

के आर ठक्कर (17488), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

जे एस बेदी (17491), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस के पाई (17492), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 सी जी एच खान (17494), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 पी एस यादव (17495), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 जे सी धलारिया (17501), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए एस ग्रोवर (17504), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 के एस सुधाकार (17510), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एन मनिरत्नम (17733), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 वी के एस यादव (17734), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 वी पी एस राना (17736), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम काल्कर (17738), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम डी एन प्रसाद (17741), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए आहूजा (17743), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस के साबेसन (17744), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 के बाली (17745), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 डी सिंह (17746), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए जे हकिम (17748), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 आई वी आर राव (17749), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 आर थोमस (17752), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए के उपाध्याय (17757), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम ए कुमार (17759), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 के आर सर्मा (मृत) (17760), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस वेंकटरमण (17768), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 सी एस प्रकाश (17769), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम बी वेंकटेश (17770), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए सी मिश्रा (17202), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 आर एस समियल (17223), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस पब्बी (17384), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए किशोर (17498), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए एस गिल (17505), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस भटनागर (17740), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 आर चंद्रा भानु (17761), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस भट्टाचार्या (17763), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 के अनंथारामन (17882), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

पी जे नायर (17884), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए पी सेलवन (17885), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एन के मेहता (17886), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए साही (17887), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम भट्टाचार्य (17889), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 के रंजीथ (17890), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 वी आर श्रीनिवास (17891), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 पी सिंह (17892), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए के श्रीनिवास (रिटायर्ड) (17894), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए राय (17895), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 पी ईश्वरराव (17896), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए वी चंद्रासेखरण (17898), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए वी पेडनेकर (18134), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एस चौधरी (18135), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 जे जोसेफ (18141), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 पी अग्रवाल (18146), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 ए सक्सेना (18147), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 डी सिंह (18149), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 जे राजेन्द्र (18150), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 आर एन जयासिन्हा (18151), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 जी एडवार्डराज (18152), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम शाह (18153), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004
 एम आई के रेड्डी (18157), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

के वी शंकर
 संयुक्त निदेशक कार्मिक अधिकारी-2बी

वायु शाखा

सं. 131, दिनांक 24 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करती हैं :--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में:--

वी त्यागी (17732), प्रशा, 15 दिसम्बर 2004

ए के सिंह
 उप-निदेशक कार्मिक अधिकारी-2बी

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 132, दिनांक 25 फरवरी 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करती हैं:--

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (मुख्यालय) के निदेशक श्री बी के सचदेवा को 01 जून 2009 से उप-महानिदेशक (मुख्यालय) के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए बंगलौर के निदेशक श्री सुशील कुमार को 04 जुलाई 2009 से उप-महानिदेशक (दक्षिण अंचल) के रूप में।

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करती हैं:--

श्री सी आर पांडुरंगी, उप-महानिदेशक (दक्षिण मण्डल) दिनांक 06 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली में महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में पदोन्नत किए गए।

विनीत सैनी
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 133, दिनांक 25 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री एस एस बंसल, निजी सचिव को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 नवम्बर 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करती हैं।

आर सी मीना
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था.)

सेना शाखा

सं. 134, दिनांक 25 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और चर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करती हैं:--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

कर्नल पी के श्रीवास्तव (टीए-41729), (इन्फैन्ट्री), 31 जुलाई 2009(एएन)

ले. कर्नल एन के तुली (टीए-41972), (रेलवे इंजीनियर टीए), 31 मई 2009

जय राज
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 135, दिनांक 26 फरवरी 2010--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करती हैं:--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

शुद्धिपत्र

19 सितम्बर 1981 को प्रकाशित हुए भारत सरकार के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में स्थाई आयोग शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के लिये - विश्वनाथ सुन्दर्शन शर्मा (आईसी-35803एल)

पढ़ें - विश्वनाथ सुन्दर्शन शर्मा (आईसी-35803एल)

राहुल शर्मा
ले कर्नल
एएमएस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th March 2010

FINANCE DIVISION

No. 120, dated 19th Feb 2010—The President is pleased to appoint Shri Pramode Kumar, Mishra, IA & AS (1984), as Additional Financial Adviser & Joint Secretary in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 30.10.2009.

T JOSEPH
Dy Financial Adviser (Estt./MO)

No. 121, dated 19th Feb 2010—The President is pleased to appoint Smt. Kamlesh Kumari a Accounts Officer of the Office of Controller General of Defence Accounts as Accounts Officer in the Finance Division of the Ministry of Defence on normal deputation terms with effect from the forenoon of 10.07.2009.

R C MEENA
Asstt Financial Adviser (Estt.)

ARMY BRANCH

No. 122, dated 19th Feb 2010—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
To be Capt

Capt Priya Taank (MS-15926-W), DOC, 16 Sep 2008

With seniority for pay and promotion from 16.09.2005 [this includes 36 months antedate for Master of Surgery (Ophthalmology), which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Sanjeev S Sharma (MS-15386-H), DOC, 22 Sep 2006

With seniority for pay and promotion from 22.09.2003 [this includes 36 months antedate seniority for Doctor of Medicine (Preventive and Social Medicine), which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Singh Sudheer Akhilesh Kumar (MS-15600-A), DOC, 6 Sep 2007

With seniority for pay and promotion from 06.03.2004 [this includes 42 months antedate seniority 36 months for Doctor of Medicine (Preventive and Social Medicine), and 6 months for house job which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Narottam Sharma (MS-15788-A), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25.10.2007. (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Preetesh Sahani (MS-15861-N), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12.02.2008. (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Goutam Bairagi (MS-15892-N), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12.02.2008. (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Bhawana Pathak (MS-15895-F), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12.08.2005 [this includes 36 months antedate seniority for Doctor of Medicine (General Medicine), which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Jyoti Kumar Singh (MS-15904-X), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12.02.2008. (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Soumik Patra (MS-15906-H), DOC, 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12.02.2008 (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Mayank Dixit (MS-15777-N), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25.10.2007 (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt

Flt Lt Lalit Kumar (MS-15625-M), (AF-29419-L), DOC, 6 Sep 2007

With seniority for pay and promotion from 06.03.2007 (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Shantanu Duarah (MS-15809-L), (AF-29436), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25.10.2007. (this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt (on Probation)

Flt Lt Waghmare Sachin Pandharinath, (MS-15893-W), AMC, 12 Aug 2008

Flt Lt Jitumani Kalita, (MS-15905-A), AMC, 12 Aug 2008

To be Capt (on Probation)

Capt Sumit Kumar Singh (MS-15791A), AMC, 25 Apr 2008

Capt Patel Kashyapkumar Chandrakantbhai (MS-15849M), AMC, 12 Aug 2008

Capt Manu N (MS-15871X), AMC, 12 Aug 2008

Capt Chauhan Milind Kashinath (MS-15897M), AMC, 12 Aug 2008

Capt Shubhrojwal Saha (MS-15909W), AMC, 12 Aug 2008

Capt Shailesh Kumar Peehal (MS-15914F), AMC, 12 Aug 2008

Capt Himanshu Sharma (MS-15915K), AMC, 12 Aug 2008

Capt Monica Saraswat (MS-15917P), AMC, 12 Aug 2008

Capt Arun K Valsan (MS-15921X), AMC, 16 Sep 2008

Capt Preeti Mishra (MS-15927Y), AMC, 16 Sep 2008

Capt Gautam H Vijay (MS-15931F), AMC, 30 Sep 2008

Capt Shridhar R Pillewan (MS-15932K), AMC, 30 Sep 2008

Capt Hariram Prasad (MS-15933M), AMC, 30 Sep 2008

Capt Santosh Kumar Chanderiya (MS-15937H), AMC, 04 Nov 2008

Capt Rashmi Chakraborty (MS-15939N), AMC, 18 Nov 2008

Capt Abhishek Rathore (MS-15422H), AMC, 06 Oct 2006

Capt Pinku Kumar (MS-15572Y), AMC, 06 Sep 2007

Capt Amithabha Pandey (MS-15747W), AMC, 25 Apr 2008

Capt Manvir Pal Kaur (MS-15797F), AMC, 25 Apr 2008

Capt Tshering Dorjee Sherpa (MS-15713H), AMC, 25 Apr 2008

Capt Manoj Sharma (MS-15753K), AMC, 25 Apr 2008

Capt Samhita Bhushan (MS-15754M), AMC, 25 Apr 2008

Capt Dilip Kumar Deepak (MS-15767K), AMC, 25 Apr 2008

Capt Santos Ranjan Nayak (MS-15779Y), AMC, 25 Apr 2008

Capt Indu Bala (MS-15786P), AMC, 25 Apr 2008

Capt Uma Maheshwari M (MS-15816F), AMC, 25 Apr 2008

Capt Yadvinder Singh Sidhu (MS-15818M), AMC, 25 Apr 2008

Capt Shaikh Azimuddin Najmuddin (MS-15827N), AMC, 22 May 2008

Capt Akoijam Khelendro Singh (MS-15439W), AMC, 22 Jan 2007

Capt Anil Kumar (MS-15912W), AMC, 12 Aug 2008

Capt Praveen Kumar Reddy K (MS-15790X), AMC, 25 Apr 2008

Capt Ghanashyam Swargiary (MS-15751Y), AMC, 25 Apr 2008

The President is pleased to make the following appointment under AI 10/2001 with effect from 07 Apr 2009, in AMC/PC (Non Tech) officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lieutenant wef 07 Apr 2009 (on Probation)

Rank, Name, Old number and allotted personal number and Date of Commission

Nb Sub Arjun Singh (JC-694606X now NTR-16814H), 07 Apr 2009

(Seniority for pay only will reckon with effect from 07 Apr 2007)

Nb Sub Santosh K Raghuwanshi (JC-694628W now NTR-16815L), 07 Apr 2009

(Seniority for pay only will reckon with effect from 07 Apr 2007)

Nb Sub Onkar Singh (JC-695327Y now NTR-16816N), 07 Apr 2009

(Seniority for pay only will reckon with effect from 07 Apr 2007)

NK/PH S Thangavel (No. 13993475K now NTR-16817W), 07 Apr 2009

NK/PTA Balwinder Singh (No. 13977306Y now NTR-16818Y), 07 Apr 2009

NK/DT Amandeep Singh (No. 15411784M now NTR-16819F), 07 Apr 2009

NK/CLK Sudheer Kumar Sharma (No. 15415185K now NTR-16820W), 07 Apr 2009

NK/NA Salesh Kumar (No. 13992407K now NTR-16821Y), 07 Apr 2009

SEP/PTA Sundhir Kumar (No. 15411887L now NTR-16822F), 07 Apr 2009

SEP/PH Vinay Kumar (No. 15415182W now NTR-16823K), 07 Apr 2009

SEP/BTA Dilip Kumar (No. 15415646H now NTR-16824M), 07 Apr 2009

SEP/DH Vijay Singh Gujar (No. 15415868X now NTR-16825P), 07 Apr 2009

SEP/DH Om Prakash Choudhary (No. 15416309A now NTR-16826X), 07 Apr 2009

SEP/AA Anil Kumar Upadhyay (No. 15416609F now NTR-16827A), 07 Apr 2009

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 07 Apr 2009, in AMC/SSC (Non Tech) :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lieutenant wef 07 Apr 2009 (On Probation)

Rank, Name, Old number and allotted personal number and Date of Commission

NK Udham Singh (No. 13989637M now NTS-17572X), 07 Apr 2009

NK K V S Anil Kumar (No. 13994325A now NTS-17573A), 07 Apr 2009

SEP Brijesh T A (No. 13999307F now NTS-17574H), 07 Apr 2009

SEP Kantha Raj (No. 15411601L now NTS-17575L), 07 Apr 2009

SEP Rajesh K Upadhyay (No. 15414888Y now NTS-17576N), 07 Apr 2009

SEP Devaiah M S (No. 15417680F now NTS-17577W), 07 Apr 2009

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt (on Probation)

Lt Kanika Parashar (MS-15946K), AMC, 05 Mar 2009

Lt Ruchi Hemdani (MS-15947M), AMC, 05 Mar 2009

Lt Moumita Ghatak (MS-15948P), AMC, 05 Mar 2009

Lt Rahul Prem M R (MS-15952X), AMC, 05 Mar 2009

Lt Chaand Ohri (MS-15953A), AMC, 05 Mar 2009

Lt Anvita Krishnakumar (MS-15957W), AMC, 05 Mar 2009

Lt Lalit Tomar (MS-15959F), AMC, 05 Mar 2009

Lt Tarapranav Bhattacharya (MS-15963K), AMC, 05 Mar 2009

Lt Pulkit Thatai (MS-15964M), AMC, 05 Mar 2009

Lt Vijay Singh (MS-15968H), AMC, 05 Mar 2009

Lt Anupam Sisodia (MS-15969L), AMC, 05 Mar 2009

Lt B Vipin (MS-15974W), AMC, 05 Mar 2009

Lt Adil Abdulla (MS-15976F), AMC, 05 Mar 2009

Lt Nikhil Prakash (MS-15977K), AMC, 05 Mar 2009

Lt Hitender Singh Rao (MS-15978M), AMC, 05 Mar 2009

Lt Hitesh Khanna (MS-15980K), AMC, 05 Mar 2009

Lt Suresh T Philip (MS-15981M), AMC, 05 Mar 2009

Lt Saurabh Sharma (MS-15983X), AMC, 05 Mar 2009

Lt Praveen Prabhakaran (MS-15985H), AMC, 05 Mar 2009

Lt Ishaan Suniara (MS-15986L), AMC, 05 Mar 2009

Lt Linto Manjaly (MS-15987N), AMC, 05 Mar 2009

Lt Swayam Shoova Sahu (MS-15970A), AMC, 05 Mar 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGA FMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 123, dated 22nd February 2010—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Sep 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 17 Sep 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arms/Services

SS-40866X, IC-66179Y, Raj Singh, AC

SS-40868H, IC-66181W, Rakesh Yadav, Inf

SS-40869L, IC-66182Y, Syed Mohammed Arif, ASC

SS-40872L, IC-66184K, Tejendra Singh Shaktawat, Inf	SS-40950X, IC-66235M, Shailendra Singh, Inf
SS-40874W, IC-66185M, Mahesh Bellad, Inf	SS-40953L, IC-66236P, Ranjan Kr Jha, Arty
SS-40876F, IC-66187X, Saurabh Diddi, Inf	SS-40954N, IC-66237X, Manmeet Singh Lakha, Mech Inf
SS-40877K, IC-66188A, Bhagat Akshay Suresh, Inf	SS-40958K, IC-66238A, Anantha Raju R P, Inf
SS-40878M, IC-66189H, Harsh Vardhan Singh, Inf	SS-40960F, IC-66239H, Bhartendu Rawat, Inf
SS-40881M, IC-66192H, Rohitkumar Ashok Patil, Inf	SS-40965A, IC-66241A, Jaivardhan Singh, Inf
SS-40882P, IC-66193L, Biren Parangden, Inf	SS-40966H, IC-66242H, Ravish Kumar Singh, Arty
SS-40884A, IC-66195W, Himmat Singh, AC	SS-40967L, IC-66243L, Abhay Bisht, Mech Inf
SS-40887N, IC-66198K, Ravi Kant, Arty	SS-40970L, IC-66245W, Amit Dwivedi, Inf
SS-40890N, IC-66199M, Barun Singha, Arty	SS-40974F, IC-66248K, Kunwar Saurabh Singh Bist, Inf
SS-40891W, IC-66200W, Mirza Zahid Baig, Inf	SS-40976M, IC-66249M, Gopal Mehra, Inf
SS-40896P, IC-66201Y, Sunil Yadav, Inf	SS-40977P, IC-66250F, Bickram Singh Sidhu, AOC
SS-40897X, IC-66202F, Lokhande Parag Krishnarao, Arty	SS-40979A, IC-66251K, Naresh Kumar Rana Rajput, Arty
SS-40898A, IC-66203K, Jithesh B, Inf	SS-40982A, IC-66254X, Shubhashish Mazumdar, Arty
SS-40900M, IC-66204M, Ranade Charudatta Jayant, Inf	SS-40986W, IC-66256H, Manish Singh, Arty
SS-40901P, IC-66205P, Vijayendra Pratap Singh, Int	SS-40987Y, IC-66257L, Amit Bora, Inf
SS-40903A, IC-66207A, Satish Chandra Lakhera, Inf	SS-40989K, IC-66258N, Jaipal Singh, Inf
SS-40907W, IC-66209L, Damle Abhijeet Rajanikant, Inf	SS-40994P, IC-66260L, Shobhit Dogra, Inf
SS-40908Y, IC-66210A, Rohit S Shekhawat, Inf	SS-41003H, IC-66263Y, Sahil Thakur, Inf
SS-40909F, IC-66211H, Puneet Malhotra, Inf	SS-41005N, IC-66264F, Gurvinder Singh, Inf
SS-40911Y, IC-66212L, Mohan Rao, Inf	SS-41007Y, IC-66265K, Harjit Singh, Arty
SS-40912F, IC-66213N, Rohit Sharma, Inf	SS-41009K, IC-66266M, Arun K, Inf
SS-40914M, IC-66215Y, Kapil Rai, Inf	SS-41014P, IC-66268X, Manish Singh, Inf
SS-40918H, IC-66216F, Rahesh B Kurup, Inf	SS-41015X, IC-66269A, Varun Kumar, Arty
SS-40924W, IC-66219P, Vijayant Bist, Inf	SS-41021L, IC-66271X, Bhawani Singh Ranawat, Mech Inf
SS-40925Y, IC-66220K, Praveen, AOC	SS-41022N, IC-66272A, Naresh Chandra Tewari, Inf
SS-40927K, IC-66221M, Nitin Rana, Inf	SS-41024Y, IC-66273H, Ateet Hansen, Inf
SS-40928M, IC-66222P, Aman Amrik Singh, ASC	SS-41026K, IC-66274L, Vikas Dubey, Inf
SS-40929P, IC-66223X, Sreenivasulu K, Inf	SS-41032X, IC-66280Y, Siddharth Saxena, AC
SS-40930K, IC-66224A, Kazi Nihal Isamuddin, Mech Inf	SS-41034H, IC-66281F, Cianto K, Arty
SS-40935H, IC-66225H, N Toshi, Inf	SS-41035L, IC-66282K, Dhyanchand Rajkumar, Arty
SS-40936L, IC-66226L, Chakkanatu Shibu John, Inf	SS-41039F, IC-66284P, Sandeep Kumar Singh, Inf
SS-40937N, IC-66227N, Vivek H Sahay, Arty	SS-41049L, IC-66291L, Vikrant Kumar Zalte, Inf
SS-40941W, IC-66229Y, Manoj Kumar Tiwari, Arty	SS-41053N, IC-66293W, Anil Pun, Mech Inf
SS-40942Y, IC-66230N, Raghavender Singh, ASC	SS-41058M, IC-66295F, Parichay Arora, AC
SS-40943F, IC-66231W, Jitender Sigh Shakawat, Inf	SS-41059P, IC-66296K, Trivender Singh Rathore, Inf
SS-40945M, IC-66232Y, Ghatge Ramesh Udaysinh, Inf	SS-41060K, IC-66297M, Somenath Roy, Arty
SS-40946P, IC-66233F, Patil Arjun Suresh, AC	SS-41063X, IC-66300F, Pukhrambam Herojit Singh, Inf
SS-40949H, IC-66234K, Nikhil Wagh, Inf	SS-41065H, IC-66302M, Rajat Sharma, Arty

SS-41068W, IC-66304X, Atom Kiran Kumar Singh, Inf
 SS-41069Y, IC-66305A, Irengbam Jayantakumar Singh,
 Arty

SS-41076P, IC-66308N, Abhishek Prakash, AAD
 SS-41081A, IC-66310L, Abhishek Singhal, Inf
 SS-41083L, IC-66311N, Bharat Singh Chauhan, AC
 SS-41084N, IC-66312W, Maneesh Sirohi, Inf
 SS-41092M, IC-66314F, Sunandan Nandy, Arty
 SS-41094X, IC-66316M, Godbole Ashish Vishwanath, Arty
 SS-41045P, IC-66288L, Himmat Singh Sangha, Inf
 SS-41073F, IC-66306H, Maneesh Dadheech, AC

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

Date for increments of pay - 17 Sep 2004

Date for promotion - 17 Apr 2005

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission during 5th years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

K M SHENDE

Lt Col

AMS 7B

ARMY BRANCH

No. 124, dated 22nd February 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 13 Dec 2008

IC-71146X, Nair Sainath Somanathan, Engrs seniority next below IC-71145P, Anirudha Ramesh Kumar Sunkara, (Inf) whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence notification published on 18 Jul 2009.

NILESH CHOWDHARY

Lt Col

AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 125, dated 22nd February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (by Time Scale)

IC No., Rank, Name, Arm and Date of Subs Rank

IC-27329N, Lt Col S G Nair, Inf, 16 Dec 2004

IC-36515L, Lt Col P S Mahant, EME, 16 Dec 2004

IC-36824N, Lt Col V P Martin, Inf, 16 Dec 2004

IC-41118W, Lt Col A C Cherian, Inf, 18 Jun 2009

IC-41124K, Lt Col N K Khatter, Arty, 18 Jun 2009

IC-41180H, Lt Col G C Sharma, Guards, 18 Jun 2009

IC-41199F, Lt Col Pratap Singh, Arty, 18 Jun 2009

IC-41201N, Lt Col Y P S Bhadoria, Mech Inf, 18 Jun 2009

IC-41208X, Lt Col U S Kulkarni, Inf, 18 Jun 2009

IC-41275H, Lt Col Ravi Kumar P E, Arty, 18 Jun 2009

IC-41304M, Lt Col Anuj Srivastava, ASC, 18 Jun 2009

IC-41334K, Lt Col Y Sudan, Inf, 18 Jun 2009

IC-41452X, Lt Col S Gopal, AEC, 18 Jun 2009

IC-43184X, Lt Col Pankaj Malviya, Engrs, 19 Jun 2009

IC-45028M, Lt Col A K Thakur, Inf, 26 Apr 2009

IC-37988W Lt Col PR Das, Arty, 11 Nov 2008

IC-38335F Lt Col Ashok Kalia, AC, 22 Dec 2005

IC-38404M Lt Col H Limbachia, Inf, 22 Dec 2005

IC-38481F Lt Col DS Panwar, Arty, 22 Jun 2007

IC-40978X Lt Col RK Palta, Inf, 24 Dec 2008

IC-41114A Lt Col SK Misra, Inf, 18 Jun 2009

IC-41250W Lt Col MP Singh, AC, 18 Jun 2009

IC-45044K Lt Col SS Pandian, Inf, 26 Apr 2009

IC-45048A Lt Col RN Gokhale, Inf, 26 Apr 2009

IC-38504X Lt Col PS Raju, Inf, 22 Dec 2005

IC-40774L Lt Col Vishesh Jhalani, Engrs, 24 Dec 2008

IC-41115H Lt Col RSP Selvan, Arty, 18 Jun 2009

IC-41164L Lt Col Narendra Singh, Inf, 18 Jun 2009

IC-43195L Lt Col JS Chouhan, Sigs, 19 Jun 2009

Maj to be Lt Col

IC No., Name, Arm & Date

IC-54090 Gaurav Chandra, AC, 09 Dec 2008

IC-58087 Amit Kumar Narula, Sigs, 13 Jun 2009

Maj to be Subs Lt Col (Time Scale)

IC-40808N Maj HS Pannu, Inf, 24 Dec 2002

JASWANT SINGH

Jt Director

MS 8C

ARMY BRANCH

No. 126, dated 23rd February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Maj to be Lt Col

Maj Mitali Hazarika (MS-13411X), 05 Jul 2009

Maj Raj Kumar Singh (MS-13594Y), 15 Jul 2009

Maj Ira Bhagat (MS-13876X), 18 Jul 2009

Maj Bindu T Nair (MS-15415M), 25 Jun 2009

Maj Rajeeb Kumar (MS-13778X), 26 Aug 2009

Capt to be Maj

Capt Sukhwinder Singh Sangha (MS-14984N), 12 Apr 2009

Capt Kamal Kumar (MS-15119F), 16 Jun 2009

Capt Archana Dalela (MS-15122F), 16 Jun 2009

Capt Swaranpreet Kaur (MS-15140K), 16 Jun 2009

Capt Rakesh Bhatia (MS-15302K), 16 Jun 2009

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Surg Lt Aparna Krishnamurthy (MS-15468L) (75935B), 22 Jan 2008

Surg Lt Jairam Yadav (MS-15018N) (75886T), 12 Apr 2009

Surg Lt Mark Bilcham G Momin (MS-15019W) (75888Y), 12 Apr 2009

Surg Lt Monika Saxena (MS-15021N) (75892F), 12 Apr 2009

Surg Lt Anjali Pandey (MS-15051L) (75891B), 12 Apr 2009

YASH PANDE

Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 127, dated 23rd February 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

SL. No., Name, & Arm/Service

SL-04952 Jagdish Chandra, AEE B/R & ASW

SL-04953 Ashvani Kumar, AEE B/R & ASW

SL-04954 Anil Kumar K R, AEE B/R & ASW

SL-04955 Mali Sampatrao Tukaram, AEE E/M & IEM

SL-04956 Malminder Singh, BSTEO

SL-04957 Vijoy Kumar Verma, EMAE

SL--04958 Partap Singh, RO

SL-04959 Sam Sunder Singh M, TOT

SL-04960 C Jithendra Nadha Reddy, TOT

SL-04961 Naik Girish Shivappa, BSTEO

SL-04962 Manoj TS, RO

SL-04963 Anil Chauhan, RO

SL-04964 Rajeevan Maram Muriyan, RO

SL-04965 Manepalli Venkat Srinivas, RO

SL-04966 Augusty Reshi, RO

SL-04967 R Vadivel, RO

SL-04968 Madan Lal Chaudhary, RO

SL-04969 Vipin Kumar M, AO

SL-04970 Satpal Singh, Master at Arms (APTC)

SL-04971 Harish Kumar, RO

SL-04972 Kalam Singh, RO

SL-04973 Bhosale Vishwas Jagannath, RO

SL-04974 Chain Sukh, RO

SL-04975 Babu Raj, RO

SL-04976 Ashok Kumar, RO

SL-04977 K Venugopal, AEE E/M & IEM

SL-04978 Ramandip Dabla, RO

SL-04979 Ganesh Dutt Joshi, RO

SL-04980 Vimal Joshi, IOAB

SL-04981 Tippani Nageswar Rao, AEE B/R & ASW

SL-04982 Anand JR, AEE B/R & ASW

SL-04983 L Mahesh Kumar, RO

SL-04984 Jagat Singh, RO

SL-04985 Ashok Kumar, IOAB

—11 Aug 2009

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 128, dated 23rd February 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned

AMC/SSC officers with effect from the date mentioned against them:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

MS-15657-P Lt Anurag Shukla, 01 Feb 2009
 MS-15696-N Lt Kunwar Shaivendra, 01 Feb 2009
 MS-15697-W Lt Dalip Singh, 01 Feb 2009
 MS-15655-K Lt Mohammed Khan, 01 Feb 2009
 MS-15685-F Lt Ravish Kumar, 01 Feb 2009
 MS-15656-M Lt Vandana Bansal, 01 Feb 2009
 MS-15667-Y Lt Ved Pratap Tiwari, 01 Feb 2009
 MS-15673-M Lt Shashank Raikwar, 01 Feb 2009
 MS-15674-P Lt Shreyash Tiwari, 01 Feb 2009
 MS-15675-X Lt Gunveen Singh Sachdeva, 01 Feb 2009
 MS-15677-H Lt Mithlesh Kumar Tiwari, 01 Feb 2009
 MS-15683-W Lt Vibhu Pratap Singh Reghuvanshi,
 01 Feb 2009
 MS-15688-P Lt Rounak Dubey, 01 Feb 2009

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to be Capt

Name, Rank, Personal No. Date of Promotion

M Omaiyaorubhagan Pillai, Lt NTR-16761-P, 20 Mar 2009

YASH PANDE
 Brig
 Dy DGAFMS (HR)

AIR BRANCH

No. 129, dated 29th February 2010—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Substantive Air Marshal (Flying Branch)

KJ Mathews (13393) F(P), 01 Sep 2009

S Varthaman (13606) F(P), 01 Sep 2009

To be Substantive Air Vice Marshal

RG Burli (14667) F(P), 25 May 2009

AK SINGH
 Dy Dir of Personnel (Officers)-PO2(B)

AIR BRANCH

No. 130, dated 24th February 2010—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Subs GP Capt (Flying Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (Actg) SA Kunte (18073), F(P), 12 Sep 2008/01 Aug 2008 (NS)

GP Capt (Actg) KB Karumbaya (P/R-31.12.2008) (18074), F(P), 01 Aug 2008

GP Capt (Actg) A Chatterjee (18078), F(P), 18 Sep 2008/01 Aug 2008 (NS)

GP Capt (Actg) DK Awasthi (18079), F(P), 03 Oct 2008/12 Aug 2008 (NS)

GP Capt (Actg) N Biswas (18081), F(P), 14 Aug 2008

GP Capt (Actg) SR Singh (18083), F(P), 01 Sep 2008

GP Capt (Actg) TK Sinha (18084), F(P), 01 Sep 2008

GP Capt (Actg) A Katyal (18086), F(P), 15 Sep 2008

GP Capt (Actg) MS Venkateshwar (18087), F(P), 15 Sep 2008

GP Capt (Actg) S Kapoor (18089), F(P), 15 Sep 2008

GP Capt (Actg) PV Gadgil (18093), F(P), 01 Oct 2008

GP Capt (Actg) R Bhalla (18094), F(P), 23 Oct 2008/01 Oct 2008 (NS)

GP Capt (Actg) A Grover (18095), F(P), 16 Oct 2008

GP Capt (Actg) PK Mohey (18099), F(P), 16 Nov 2008

ADM BRANCH

To be Subs Wg Cdr (Adm Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date of Subs

WC P Daniel (16850), Adm, 15 Dec 2004

WC AS Dongre (17031), Adm, 15 Dec 2004

WC D Vermani (17037), Adm, 15 Dec 2004

WC S Karunakar (17042), Adm, 15 Dec 2004

WC DN Panda (17050), Adm, 15 Dec 2004

WC S Kumar (17052), Adm, 15 Dec 2004

WC CP Nigam (17054), Adm, 15 Dec 2004

WC S Mukhopadhyay (17061), Adm, 15 Dec 2004

WC S Banerjee (17066), Adm, 15 Dec 2004

WC RS Rajput (17193), Adm, 15 Dec 2004

WC D Prajapati (17094), Adm, 15 Dec 2004

WC A Bhattacharya (17200), Adm, 15 Dec 2004

WC AK Misra (17201), Adm, 15 Dec 2004	WC MB Venkatesh (17770), Adm, 15 Dec 2004
WC RP Anto (17217), Adm, 15 Dec 2004	WC AC Mishra (17202), Adm, 15 Dec 2004
WC HO Mehra (17221), Adm, 15 Dec 2004	WC RS Samial (17223), Adm, 15 Dec 2004
WC P Parthasarathi (17383), Adm, 15 Dec 2004	WC S Pabbi (17384), Adm, 15 Dec 2004
WC R Sharma (17479), Adm, 15 Dec 2004	WC A Kishore (17498), Adm, 15 Dec 2004
WC A Sachdev (17481), Adm, 15 Dec 2004	WC AS Gill (17505), Adm, 15 Dec 2004
WC J Jose (17482), Adm, 15 Dec 2004	WC S Bhatnagar (17740), Adm, 15 Dec 2004
WC RK Chitta (17483), Adm, 15 Dec 2004	WC R Chandra Bhanu (17761), Adm, 15 Dec 2004
WC DV Mohbe (17484), Adm, 15 Dec 2004	WC S Bhattacharya (17763), Adm, 15 Dec 2004
WC S Chaudhri (17485), Adm, 15 Dec 2004	WC K Anantharaman (17882), Adm, 15 Dec 2004
WC KR Thaakar (17488), Adm, 15 Dec 2004	WC PJ Nair (17884), Adm, 15 Dec 2004
WC JS Bedi (17491), Adm, 15 Dec 2004	WC AP Selvan (17885), Adm, 15 Dec 2004
WC SK Pai (17492), Adm, 15 Dec 2004	WC NK Mehta (17886), Adm, 15 Dec 2004
WC CGH Khan (17494), Adm, 15 Dec 2004	WC A Sahi (17887), Adm, 15 Dec 2004
WC PS Yadav (17495), Adm, 15 Dec 2004	WC M Bhattacharjee (17889), Adm, 15 Dec 2004
WC JC Dhalaria (17501), Adm, 15 Dec 2004	WC K Ranjith (17890), Adm, 15 Dec 2004
WC AS Grover (17504), Adm, 15 Dec 2004	WC VR Srinivas (17891), Adm, 15 Dec 2004
WC KS Sudhakar (17510), Adm, 15 Dec 2004	WC P Singh (17892), Adm, 15 Dec 2004
WC N Munirathnam (17733), Adm, 15 Dec 2004	WC AK Srinivas (Retd) (17894), Adm, 15 Dec 2004
WC VKS Yadav (17734), Adm, 15 Dec 2004	WC A Rai (17895), Adm, 15 Dec 2004
WC VPS Rana (17736), Adm, 15 Dec 2004	WC P Eswararao (17896), Adm, 15 Dec 2004
WC M Kalkar (17738), Adm, 15 Dec 2004	WC AV Chandrasekharan (17898), Adm, 15 Dec 2004
WC MDN Prasad (17741), Adm, 15 Dec 2004	WC AV Pednekar (18134), Adm, 15 Dec 2004
WC A Ahuja (17743), Adm, 15 Dec 2004	WC S Chowdhury (18135), Adm, 15 Dec 2004
WC SK Sabesan (17744), Adm, 15 Dec 2004	WC J Joseph (18141), Adm, 15 Dec 2004
WC K Wali (17745), Adm, 15 Dec 2004	WC P Agarwal (18146), Adm, 15 Dec 2004
WC D Singh (17746), Adm, 15 Dec 2004	WC A Saxena (18147), Adm, 15 Dec 2004
WC AJ Hakim (17748), Adm, 15 Dec 2004	WC D Singh (18149), Adm, 15 Dec 2004
WC IVR Rao (17749), Adm, 15 Dec 2004	WC J Rajendra (18150), Adm, 15 Dec 2004
WC R Thomas (17752), Adm, 15 Dec 2004	WC RN Jayasimha (18151), Adm, 15 Dec 2004
WC AK Upadhyaya (17757), Adm, 15 Dec 2004	WC G Edwardraj (18152), Adm, 15 Dec 2004
WC MA Kumar (17759), Adm, 15 Dec 2004	WC M Shah (18153), Adm, 15 Dec 2004
WC KR Sarma (Died) (17760), Adm, 15 Dec 2004	WC Mik Reddy (18157), Adm, 15 Dec 2004
WC S Venkataramana (17768), Adm, 15 Dec 2004	
WC CS Prakash (17769), Adm, 15 Dec 2004	

K V SHANKAR
Jt Dir of Personnel (Officers)
2(B)

AIR BRANCH

No. 131, dated 24th February 2010—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Adm Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date of Subs

WC V Tyagi (17732), Adm, 15 Dec 2004

(His name will appear between WG Cdr KS Sudhakar (17510), Adm and WG Cdr N Munirathnam (17733), Adm in the Combined Gradation List)

A K SINGH

Dy Dir of Personnel (Officers)
2(B)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL
QUALITY ASSURANCE

No. 132, dated 25th February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

Shri VK Sachdeva, Director of HQ DGAQA, New Delhi as Deputy Director General (HQ) in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 01 Jun 2009 (FN)

Shri Sushil Kumar, Director of ORDAQA, Bangalore as Deputy Director General (South Zone) in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 04 Jul 2009 (FN)

Shri CR Pandurangi, Dy Director General (South Zone), as Director General, Aeronautical Quality Assurance in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 06 Jul 2009 (FN)

VINEET SAINI

Under Secy

No. 133, dated 25th February 2010—The President is pleased to retire Shri S. S. Bansal, Private Secretary, Ministry

of Defence (Finance) from Government Service with effect from 30.11.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

R. C. MEENA

Asstt. Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 134, dated 25th February 2010—The President is pleased to permit the following officers to retire with permission to retain their rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Col PK Srivastava (TA-41729), Infantry, 31 Jul 2009 (AN)

Lt Col NK Tuli (TA-41972), Rly Engr (TA), 31 May 2009

JAI RAJ

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 135, dated 26th February 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 19 Sep 1981 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under :—

For — Vishwanath Sundarshan Sharma (IC-35803L)

Read — Vishwanath Sudarshan Sharma (IC-35803L)

RAHUL SHARMA

Lt Col

AMS 8B